

**Training Programme on
“Nursery and propagation techniques of *Trillium govaniatum* (Nagchhatri)”
held at Rampur, Shimla (H.P.) on dated 14th March, 2021: A Report**

One day training programme on ‘**Nursery and propagation techniques of Nagchhatri (*Trillium govaniatum*)**’ for Mahila Mandals and progressive farmers of Rampur and adjoining areas was organized by Himalayan Forest Research Institute, Shimla at Bushahr Sadan, Rampur, Shimla (H.P.) on 14th March, 2021. This training programme was organized under National Medicinal Plants Board, New Delhi funded project titled “Standardization of nursery and propagation methods of *Trillium govaniatum* Wall. ex D. Don (Nag chhatri)”. Thirty two participants from Rampur and adjoining areas, actively participated in the training programme.

During the inaugural session Sh. **Jagdish Singh, Scientist-F & Training Coordinator**, welcomed Dr. R.S. Minhas, Director, HIMORD, Chief Guest and participants and informed about the training programme. **Dr. Sandeep Sharma, Scientist-G** highlighted the activities of Himalayan Forest Research Institute, Shimla. **Dr. R.S. Minhas**, in his inaugural address emphasized that organic approach should be adopted for cultivation of medicinal plants. He further informed that Rampur area has conducive climate and geography for cultivation of many important medicinal plants. He thanked HFRI, Shimla for conducting such training at Rampur for the benefit of different stakeholders.

During the technical session Sh. **Jagdish Singh, Scientist-F** delivered a talk on “**Identification and uses of important medicinal plants of North Western Himalaya** and ‘**Nursery and propagation techniques of Nagchhatri (*Trillium govaniatum*)**’ and informed that the Institute has successfully developed the vegetative propagation methods of *T. govaniatum* and raised about 2500 plants in the nursery.

Dr Sandeep Sharma, Scientist-G, deliberated upon ‘**Modern nursery techniques for raising quality planting stock of medicinal plants and forestry species**’ and also discussed about ‘**Marketing of NTFPs**, for sustainable income generation. He highlighted the practical problems and solutions in marketing of produce and emphasized that it’s the high time to start commercial cultivation of important medicinal plants through cluster formation to enhance the bargaining power of the farmers and realise better returns of their produce.

In the afternoon, **Dr. R.S. Minhas** apprised participant about ‘**Organic farming, Certification and product development**’.

Late in the afternoon, a practical demonstration on macro-proliferation techniques of important medicinal plants were given to participants.

During the closing session the queries of the participants were duly addressed by the resource persons. The participants found this training programme very informative and urged to conduct such programme from time to time in future too. The training programme ended with a vote of thanks by training coordinator.

Glimpses of Training Programme



Media Coverage

औषधीय पौधों पर बांटी जानकारी



रामपुर बुझहर। हिमाचल वन अनुसंधान संस्थान शिमला द्वारा रविवार को रामपुर के बुझहर सदन में एकदिवसीय औषधीय पौधों की खेती पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। शिविर का उद्घाटन एचआरएमडीआरडी के निदेशक डॉ. रजोत सिंह मिश्रा ने किया। मुख्यतः वे उपस्थित लोगों को जैविक खेती के बारे में जानकारी दी और उच्च नमर्कटिंग के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर किराने, महिला और युवा मंडलों के सदस्य उपस्थित रहे।

शिमला, सोमवार, 15 मार्च, 2021

दिव्य हिमाचल

लोगों को बताए औषधीय पौधों के गुण

संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुझहर। हिमाचल वन अनुसंधान संस्थान शिमला ने रविवार को रामपुर के बुझहर सदन में औषधीय पौधों की खेती पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया।

एचआरएमडीआरडी निदेशक डॉ. रजोत सिंह मिश्रा ने इसका शुभारंभ किया। कार्यक्रम में किसानों और महिला मंडल सदस्यों को जैविक खेती के बारे में जानकारी दी गई और इसकी मार्केटिंग के बारे में भी प्रस्ताव रखा। स्थान के चरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. संदीप शर्मा और डॉ. जगदीश



रामपुर बुझहर सदन में प्रशिक्षण शिविर के दौरान मौजूद लोग। संवाद

सिंह ने शिविर में कहा कि रामपुर क्षेत्र को अनुकूल जलवायु के कारण यहां पर औषधीय पौधों की खेती संभव है।

उन्होंने संस्थान की महिलाओं पर विस्तार प्रकाश डाला और पिछले के माध्यम से औषधीय पौधों और उनके बनने वाली दवाइयों के बारे में जानकारी

दी। उन्होंने पौधों को तैयार करने और उनकी मार्केटिंग से संबंधित जानकारी भी लोगों को दी। इसका लक्ष्य जा रहे हैं कि भविष्य में औषधीय पौधों पर संकट गहरा सकता है, इसलिए इसे पर्सरी और प्रवर्धन तकनीक को मदद से विकसित किया जा सकता है।

अमर उजाला

सोमवार, 15 मार्च 2021